

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिबीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 416]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 अगस्त 2010—श्रावण 21, शक 1932

चिकित्सा शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

Bhopal, the 12th August 2010

No. F-4-3-2010-1-LV-ERRATA.—In the Madhya Pradesh Priyate Medical and Dental Under Graduate Course Entrance Examination Rules 2010, published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra ordinary)” dated 30th March, 2010.

in place of Sub-rules 3 and 4 of Rule 11 mentioned as :—

- “(3) In all the categorywise lists the PH, MP & FF candidates will be shown distinctly as such according to their merit.”
- “(4) The separate list of PH, MP & FF candidate will also be prepared categorywise as per their merit.”

following be read :—

- “(3) In all the categorywise lists only PH candidates will be shown distinctly as such according to their merit.”
- “(4) The separate list of only PH candidate will also be prepared categorywise as per their merit.”

By order and in the name of the Governor of the Madhya Pradesh,  
INDRANEEL SHANKAR DANI, Principal Secy.